



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 2012/माघ 1, 1933

No. 131]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 2012/MAGHA 1, 1933

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 143(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडु में तिरुतनी के पास विजयवाडा-नेल्लोर - चैन्नई पाइपलाइन के टर्मिनल प्वाइंट से देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलोजिसटिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा चैन्नई - वंगलौर - मंगलौर पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री सी. कृष्णय्याह, सक्षम प्राधिकारी, रिलोजिसटिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 18-1-7/वी, कपिलतीर्थम बायपास रोड, एस.वी.आय. ट्रेनिंग सेन्टर के सामने, तिरुपति-517507, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल/ तेहसिल/ तालुक : गंगावरम	जिला : चित्तूर	राज्य : आन्ध्र प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे सं./ सब डिविजन सं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि.एयर
1	2	3	4	5
1) कीलपटला	417	00	00	80
	416/2*	00	12	20
2) भेलुमयि	3*	00	14	80
	1*	00	04	10

* का.आ. 2747 दिनांक 29.10 2010 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा. सं. एल-14014/72/2010-जी.पी.]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

S.O. 143(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas from terminal point of Vijayawada-Nellore-Chennai pipeline near Tiruttani in Tamil Nadu to consumers in various parts of the country, Chennai - Bangalore - Mangalore pipeline should be laid by M/s Relogistics Infrastructure Limited;

And, whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying the pipeline under the land to Shri C.Krishnaiah, Competent Authority, Relogistics Infrastructure Limited, 18-1-7/B, Kapila Theertham Bypass Road, Opp. S.B.I Training Center, Tirupati-517507, Chittoor District, Andhra Pradesh State.

Schedule

Mandal/Tehsil/Taluk:Gangavaram		District:Chittoor		State:Andhra Pradesh	
Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for RoU			
		Hec	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Keelapatla	417	00	00	80	
	416/2*	00	12	20	
2) Melumayi	3*	00	14	80	
	1*	00	04	10	

* Additional area to 3(1) Notification SO 2747 dated 29.10.2010

[F. No. L-14014/72/2010-GP.]

A. GOSWAMI, Under Secy.